

**\*प्रेस नोट- थाना गाँधीपार्क, अलीगढ़\***

**\*दिनांक:- 02.08.2022\***

**\*ऑपरेशन निहत्था के तहत थाना गाँधीपार्क पुलिस टीम ने एक अभियुक्त किया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा कारतूस बरामद।\***

**\*पुलिस कार्यवाही का विवरण:-\***

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद अलीगढ़ द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन निहत्था के तहत थाना गाँधीपार्क पुलिस टीम द्वारा छर्छा पुल के नीचे से अभियुक्त वैभव वाष्ण्य पुत्र निरंजनलाल वाष्ण्य निवासी- सुरेन्द्र नगर वाली गली थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़ को एक अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त: -\***

वैभव वाष्ण्य पुत्र निरंजनलाल वाष्ण्य निवासी- सुरेन्द्र नगर वाली गली थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़

**\*पंजीकृत अभियोग:-\***

मु0अ0सं0 478/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गाँधीपार्क अलीगढ़

**\*बरामदगी: \***

एक अवैध तमंचा मय एक जिन्दा कारतूस 315 बोर

**\*पुलिस टीम: -\***

1.उ0नि0 श्री नितिन राठी थाना गाँधीपार्क जनपद अलीगढ़

2.हे0का0 37 राजेन्द्र सिंह थाना गाँधीपार्क जनपद अलीगढ़



प्रेस नोट-थाना इगलास,अलीगढ़

दिनांक:- 02.08.2022

ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना इगलास पुलिस टीम ने 02 वांछित अभियुक्त किए गिरफ्तार,कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध देशी तमंचा कारतूस बरामद ।

**पुलिस कार्यवाही का विवरण:-**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,अलीगढ़ द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के अनुक्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी इगलास के पर्यवेक्षण में थाना इगलास पुलिस टीम द्वारा पथवारी मन्दिर गोण्डा तिराहे के पास से मु0अ0सं0 402/22 धारा 147/148/307/323/504/506 भादवि के वांछित अभियुक्त 1.सत्यपाल पुत्र ओंकार सिंह 2.ओंकार सिंह पुत्र हरप्रसाद को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की निशानदेही पर एक तमंचा 315 बोर व एक खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया, जिसके आधार पर थाना हाजा पर

मु0अ0सं0 404/2022 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. सत्यपाल पुत्र ओंकार सिंह ग्राम करथला थाना इगलास जनपद अलीगढ़
2. ओंकार सिंह पुत्र हरप्रसाद निवासी ग्राम करथला थाना इगलास अलीगढ़

### आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 402/22 धारा 147/148/307/323/504/506 भादवि थाना इगलास अलीगढ़
2. मु0अ0सं0 404/22 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना इगलास जनपद अलीगढ़

### बरामदगी का विवरण

एक तमंचा देशी व एक खोखा कारतूस 315 बोर

### पुलिस पार्टी:-

1. उ0नि0 श्री महावीर सिंह थाना इगलास जनपद अलीगढ़
2. का0 884 रवि चाहर थाना इगलास जनपद अलीगढ़
3. का0 2103 विपिन तोमर थाना इगलास जनपद अलीगढ़



**प्रेस नोट – साइबर सेल, अलीगढ़**

**दिनांक:- 02.08.2022**

**जनपद अलीगढ़ की साइबर सेल टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हुये पीड़ित के एक लाख रुपये कराए वापस**

**घटना का संक्षिप्त विवरण:-**

शिकायतकर्ता श्री चन्द्रकान्त गौतम निवासी राजविहार कालोनी थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़ ने ऑनलाइन शिकायती प्रार्थना पत्र द्वारा अवगत कराया कि दिनांक 23.07.2022 को बिजली का बिल जमा करने के नाम पर शिकायतकर्ता के खाते से 2,07,000 रु0 काट लिये थे।

**पुलिस कार्यवाही का विवरण:-**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ श्री कलानिधि नैथानी द्वारा अतिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही हेतु दिये गये आदेश-निर्देशों के अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक अपराध श्रीमती रजनी के पर्यवेक्षण में साइबर सेल टीम द्वारा शिकायतकर्ता से घटना के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर शीघ्र सम्बन्धित पेमेन्ट गेटवे/ मर्चेन्ट से सम्पर्क करके फ्रॉड की गयी धनराशि को रूकवाया गया और शिकायतकर्ता की फ्रॉड की गई धनराशि 1,00,000/- रु0 शिकायतकर्ता के खाते में वापस करा दी गयी है।

**शिकायतकर्ता की फ्रॉड की गई धनराशि उनके खाते में वापस आने पर शिकायतकर्ता द्वारा अलीगढ़ पुलिस को धन्यवाद कर भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।**



## □ अलीगढ़ पुलिस □

इंटीग्रेटेड कमाण्ड एंड कंट्रोल सेन्टर की मदद से मिला टैम्पो में छूटा यात्री का बैग

### घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 07/07/ 2022 को कस्बा चण्डौस निवासी उमेश जो सूतमील चौराहा से ऑटो में बैठकर एफ.एम.टावर तिराहा गया था, एफ0एम0टावर तिराहे पर ऑटो से उतरते समय ऑटो में रखा अपना बैग उतारना भूल गये जिसमें चाँदी की कन्धनी व अन्य जरूरी सामान था। जिसकी सूचना शिकायतकर्ता द्वारा कन्ट्रॉल रूम को दी गई।

### पुलिस कार्यवाही का विवरण:-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में इंटीग्रेटेड कमाण्ड एंड कन्ट्रोल सेन्टर टीम द्वारा टैम्पो में आवेदक का बैग छूट जाने की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जिस टैम्पो में सामान छूटा था उसका नम्बर UP81 DT 2818 ट्रेस किया गया, आज दिनांक 02.08.2022 को उक्त ऑटो का सिस्टम का अलर्ट प्राप्त होने पर टैम्पो चालक चाँद को बुलाकर आवेदक उमेश उपरोक्त का सामान सकुशल बरामद कर सुपुर्द किया गया।

□ आवेदक ने अपना खोया हुआ बैग सामान सहित वापस मिलने पर खुश होकर अलीगढ़ पुलिस का शुक्रिया अदा किया।

